



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8, 2003 (फाल्गुन 17, 1924)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8, 2003 (PHALGUNA 17, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

## भाग 1—खण्ड 4 [PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2003

सं० 131, दिनांक 28 जनवरी 2003—रक्षा उत्पादन और प्रति विभाग, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री कंवर प्रताप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 71) का गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनुमोदन होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 26-12-2002 (पूर्वाह्न) से गृह मंत्रालय की सौंपी जाती हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 86) के अधिकारी श्री संजय प्रसाद का गुजरात सरकार से स्थानांतरण होते पर उन्हें 30 दिसम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से 29 दिसम्बर, 2007 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय रेल लेखा सेवा (86) के अधिकारी श्री तबीर अहमद का रेल मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 7-1-2003 (अपराह्न) से 07-01-2008 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वर्ष 1998 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की प्रधा। निजी सचिव की वयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के विलयित ग्रेड 'क' और 'ख' (निजी सचिव के रूप में पदनामित) तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न (के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर इसी मंत्रालय में 10,000—325—15,200/- रु० के वेतनमान में 10-12-2002 से अगले आदेश जारी होने तक करते हैं :—

क्र० सं० अधिकारी का नाम

1. श्री सतीन्द्र कुमार
2. श्री बी० के० बैनर्जी
3. श्री सुनील कुमार
4. श्री राधेप्रसाद

वी० सरस्वती,  
अवर सचिव

## सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 132, दिनांक 29 जनवरी 2003—राष्ट्रपति महोदय स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को, नवम्बर 2002 से 6 मई, 2003 अथवा जब तक नियमित पदधारी उपलब्ध न हो जाएं इनमें से जो भी पहले हो, उस समय तक सहर्ष उपनिदेशक नियुक्त करते हैं :-

1. श्री रतेन कुमार (जन्म तिथि 11-01-1965)
2. श्री डी० के० चक्रवर्ती (जन्म तिथि 16-04-1954)
3. श्री एच०एम०एस० तंवर (जन्म तिथि 26-02-1956)

2. ये नियुक्तियां पूर्णतया काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई है और प्रशासनिक कारणों के अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने पर पूर्व सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

गु० आ० म० नि० (गु०आ०नि०एल०)

राष्ट्रपति सहर्ष श्री सन्तनु दास सहायक को 01-10-02 (पूर्वाह्न) से 24-02-2003 तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति न्यायालयों में लंबित वरिष्ठता एवं पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों में निर्णय के परिपालन में यथावश्यक संशोधन के अधीन है।

सन्तोष दास गुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

## सेना सचिव शाखा

संख्या 133, दिनांक 04 जनवरी 2003—राष्ट्रपति सहर्ष मे० ज० राजिन्दर सिंह, एवी एस एम, बी एस एम (आई सी 16953) को 01 जनवरी 2003 (पूर्वाह्न) आर्टिलरी रेजिमेंट के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष मे० ज० आर एस बतरा, बी एस एम (आई सी-16925) को 01 जनवरी 2003 (पूर्वाह्न) ईएम ई के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

एन मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक  
एम एस (एक्स)

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं० 134, दिनांक 29 जनवरी 2003—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम

2001 के नियम 7 (8) के अन्तर्गत दिनांक 28-11-2002 से 24-02-2003 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु० 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

(क) श्री जगमोहन स्वरूप

(ख) श्रीमति विद्या कटारिया

ये नियुक्ति पूर्णतया काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7 (8) के अन्तर्गत दिनांक 27-09-2002 से 24-02-2003 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु० 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

(क) श्रीमति प्रेमलता ओबेराय

(ख) श्री उमराव सिंह भिण्डवारे

(ग) श्री खुशाल चन्द्र

ये नियुक्ति पूर्णतया काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों से रद्द की जा सकती है।

सन्तोष दास गुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं० 135, दिनांक 05 जनवरी 2003—राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/228/यू एस (पी) डी (एन-II), दिनांक 02 फरवरी 2001 के अधीन भारतीय नौसेना को अभियांत्रिकी शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले० के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना (अभियांत्रिकी शाखा)

मराठे प्रसाद विजय 42070-एन अल्पकालीन—

04-01-1999

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822 डी ई एस 711/यू एस (पी) डी (एन-II) दिनांक 20 अप्रैल 01 के अधीन भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब ले० के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना (विद्युत शाखा)

देसाई विग्रम सिंह 51653-टी अल्पकालीन—05-07-99

अन्नामलाई रूवेन 51655-वाई अल्पकालीन—05-07-99

अनिल कुमार

कमांडर

उप निदेशक जनशक्ति (आर एण्ड आर)

नौसेना मुख्यालय

सेना शाखा

(इतिहास प्रभाग)

सं० 136, दिनांक 29 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष श्री वाई० सी० भागवत अनुसंधान सहायक को दिनांक 1 जनवरी, 2003 से सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 से पदोन्नत करते हैं :—

(प्राधिकार:ए/97357/ए/मुप्रअ/का०-2-दिनांक 1 जनवरी 2003)

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(प्र)

थल सेना विभाग

सं० 137, दिनांक 3 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं। पद और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर, मलविन्द्र सिंह (जे सी-136012-पी) पहले सिख रेजीमेंट—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार मेजर अमरीक सिंह (जे सी-142991 पी) पहले सिख लाईट इन्फैंट्री—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार मेजर मोहन सिंह (जे सी-132384-एच) पहले गढ़वाल राईफल्स—2 मार्च, 2001।

सूबेदार मेजर सन्त कुमार पाण्डे (जे सी-160975-ए) पहले बिहार रेजीमेंट—3 मार्च, 2001।

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार विनोद कुमार राय (जे सी-147554-आई) पहले 11 गोरखा राईफल्स—8 नवम्बर, 2000।

सूबेदार हीरा लाल कारकी (जे सी-163400-डब्ल्यू) पहले सिगनल कोर—8 नवम्बर, 2000।

सूबेदार चिमन लाल, एस एम (जे सी-185213-एक्स) पहले डोगरा रेजीमेंट—28 फरवरी, 2000।

सूबेदार महादेव माने (जे सी-168599-एम) पहले महार रेजीमेंट—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार मुक्ता बहादुर गुलंग (जे सी-179483-डब्ल्यू) पहले 5 गोरखा राईफल्स—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार मनोहर जादव (जे सी-130816-एन) पहले माराठा लाईट इन्फैंट्री—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार बलबीर सिंह (जे सी-117300-एम) पहले जाट रेजीमेंट—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार राज पाल (जे सी-206190-एक्स) पहले -आर्टिलरी—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार भंवरलाल (जे सी-448178-एफ) पहले ग्रेनेडियर्स—28 फरवरी, 2001।

सूबेदार उत्तम बहादुर चन्द (जे सी-159297-वाई) पहले जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री—2 मार्च, 2001।

सूबेदार कृष्ण कुमार शर्मा (जे सी-139073-एक्स) पहले कुमायूं रेजीमेंट—2 मार्च, 2001।

सूबेदार मागय नरायण झा (जे सी-156803-एन) पहले ब्रिगेड आफ दी गार्ड—2 मार्च, 2001।

सूबेदार हरदेव सिंह (जे सी-186023-एक्स) पहले सिगनल कोर—2 मार्च, 2001।

सूबेदार कृष्णा आर (जे सी-177329-वाई) पहले मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप—2 मार्च, 2001।

सूबेदार प्रकाश चन्द (जे सी-155040-डब्ल्यू) पहले ग्रेनेडियर्स—3 मार्च, 2001।

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जनक राज (जे सी-578054-डब्ल्यू) पहले जम्मू और कश्मीर राईफल्स—6 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार बलराम (जे सी-108045-एच) पहले भारतीय नौसेना—8 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे सी-810113-एक्स) पहले इन्टेलीजेन्स कोर—9 नवम्बर, 2000।

जी० के० चान्ना

उप सचिव

थल सेना विभाग

सं० 138, दिनांक 03 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

\*हवलदार बलवन्त सिंह रावत (4051967-के अब जेसी-841305-डब्ल्यू)—13 जून 2002।

\*हवलदार गणेश सिंह (4249885-एम अव जेसी-841313-पी)—14 अगस्त 2002

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002)

हवलदार मोती सिंह राणा (4051547-के अव जे सी 841344-पी)—04 सितम्बर 2002

हवलदार बद्री प्रसाद गुप्ता (6899468-ए अव जे सी 841345-एक्स)—09 अगस्त 2002

\*\*हवलदार जोभिन्द्र सिंह (10313275-एव अव-जे सी 841346-ए)—01 अगस्त 2002

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002)।

\*\*\*हवलदार रामचन्द्रा बाबू रेडेकर (10149412-एक्स अव जेसी-841349-एन)—01 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार सी डी जोस (10165114-एल अव जेसी-841351-एल)—04 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार कुश नाथ देमाई (10149644-पी अव जेसी-841352-एन)—01 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार वेत राम (13727555-एक्स अव जेसी-841353-डब्ल्यू)—02 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार सोहन सिंह (10196959-एल अव जेसी-841354-वाई)—02 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार राम चन्द्र (6327069-एच अव जेसी-841355-एफ)—02 सितम्बर 2002

\*\*\*हवलदार सुखदेव सिंह (2461944-एक्स अव जेसी-841356-के)—01 सितम्बर 2002

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002)।

\*हवलदार के बी जोसेफ (10165075-एक्स अव जेसी 841350-एच)—09 सितम्बर 2002

\*हवलदार गजेन्द्रा बहादुर परिवार (14205477-वाई अव जेसी-841358-गो)—03 अक्टूबर 2002

\*हवलदार रमेश कुमार (1445240-एल अव जेसी-841359-एक्स)—01 अक्टूबर 2002

\*हवलदार एम जे राजन (8823859-के अव जेसी-841360-एम)—30 अक्टूबर 2002

\*हवलदार लोर्थ राम (10360887-एल अव जेसी-841361-गो)—09 अक्टूबर 2002

\*हवलदार पी प्रेमा राजन (10289534-वाई अव जेसी-841362-एक्स)—16 अक्टूबर 2002

\*हवलदार चन्द्रशेखर शिराहटो (10419987-डब्ल्यू अव जेसी-841363-ए)—23 अक्टूबर 2002

\*हवलदार दया चन्द (13661377-डब्ल्यू अव जेसी-841364-एच)—23 अक्टूबर 2002

\*हवलदार सतनाम सिंह (1548002-एफ अव जेसी-841365-एल)—17 अक्टूबर 2002

\*हवलदार बरनाम सिंह (1246404-एफ अव जेसी-841366-एन)—05 अक्टूबर 2002

\*हवलदार गोमाज सिंह (4159376-एम अव जेसी-841367-डब्ल्यू)—17 अक्टूबर 2002

\*हवलदार सी विजय कुमार नायर (10289422-वाई अव जेसी-841368-वाई)—05 अक्टूबर 2002

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002)।

\*\*हवलदार लक्ष्मण सिंह (8823786-वाई अव जेसी-841369-एफ)—26 नवम्बर 2002

\*\*हवलदार प्रभाकर नायक (10258917-के अव जेसी-841375-पी)—07 दिसम्बर 2002

\*\*हवलदार राम मेहर सिंह (10134210-वाई अव जेसी-841378-एच)—11 नवम्बर 2002

\*\*हवलदार शोशपाल सिंह बिष्ट (4049931-एम अव जेसी-841382-एल)—25 नवम्बर 2002

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002)।

\*\*\*हवलदार सईद मोहम्मद अब्दुल सलम (14208283-एफ अव जेसी-841384-डब्ल्यू)—02 दिसम्बर 2002

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002)।

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार सुखदेव राज (जेसी-153551-एफ)—1 दिसम्बर 2001

सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-163893-एच)—01 फरवरी 2002

सूबेदार राम सिंह यादव, एस एम (जेसी-123528-वाई)—10 मई 2002

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार नेज कुमार थापा (जेसी-192496-एम)—01 दिसम्बर 2001

नायब सूबेदार टी भास्करन (जेसी-840368-एम)—01 जनवरी 2002

नायब सूबेदार मोहन प्रसाद (जेसी-147383-एक्स)—01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार मन बहादुर सुनवार (जेसी-183387-वाई)—01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-177898-एफ)---  
01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार राम सरूप (जेसी-152706-एफ)---01  
फरवरी 2002

नायब सूबेदार जय कर्ण (जेसी-142961-एफ)---  
01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार श्रीकार सिंह (जेसी-135683-एम)---  
01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-139648-एफ)---01  
फरवरी 2002

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-171138एन)---01  
फरवरी 2002

नायब सूबेदार हकम चन्द (जेसी-202612-ए)---01  
मार्च 2002

नायब सूबेदार जले सिंह (जेसी-840318-एफ)---01  
मार्च 2002

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-840327-एच)---  
1 मार्च 2002

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे सी-840315-एन)---01  
मार्च 2002

जी० के० चावना  
उप सचिव

#### रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग

सं० 139, दिनांक 4 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां/नियुक्तियां करते हैं—

1. व० गु० आ० स्था० (आयुध) कोलकाता के श्री एन० एन० राय, प्रशासनिक अधिकारी की 27 नवम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर व० गु० आ० स्था० (लघु शस्त्र), कोलकाता में स्थानापन्न व० प्र० अ० ग्रेड-II के रूप में।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति विभाग, अन्न सुरक्षा अभियान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के श्री पौल पी० जार्ज तकनीकी सहायक की 1 नवम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय प्रमाण स्थापना, इटारसी में भंडार अधिकारी के रूप में।

3. गु० आ० नि० (इ डब्ल्यू) सिकन्दराबाद के श्री सी० एच० जगदीसवर राव, चार्जमैन ग्रेड-II की 30 सितम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर गु० आ० नि० (प्रणाली) सिकन्दराबाद में भंडार अधिकारी के रूप में।

4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के श्री एस० रवी कुमार, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) की 10

दिसम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर गु० आ० नि० (इलेक्ट्रानिकी), बंगलौर में भंडार अधिकारी के रूप में।

एस० एन० त्रिपाठी  
उप सचिव

सं० 140, दिनांक 5 जनवरी 2003—राष्ट्रपति चतुर्थ निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

चन्द्र प्रताप सिंह (एम एस-13532 वाई) (एम आर-07813 वाई)— ए एम सी—27 नवम्बर 2001।

सरला गुरमीत सिंह (एम एस-13381 एल), एम आर-07794 वाई), ए एम सी—12 जुलाई 2002।

सर्जन लेफ्टिनेंट कम्डा० के पद पर

पी० के० श्रीवास्तव (एम एस-12866 एफ) (75606-एफ), एम आर-07792 एच), ए एम सी—4 जनवरी 1999।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 3 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

के बी एन एस डोड, ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (कामिक)

सं० 141, दिनांक 4 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले० से कैप्टन

आई० सी० सं०, नाम एवं आर्म

55531 डी० बी० राय, मेक इन्फैन्ट्री

55532 बी० चौहान, मेक इन्फैन्ट्री

55533 एन० एस० मान, ए सी

55534 डी एस० धामी, इन्फैन्ट्री।

55535 आर० सिंह, इन्फैन्ट्री।

55536 एच० सिंह, ई एम ई।

55537 एस० मलिक, मेक इन्फैन्ट्री।

55538 के० डोगरा, ए एस सी।

55539 ए० कुमार, आर्टी।

55540 एच० एस० रावत, ए ओ सी।

55541 एस० कुमार, आर्टी ।  
 55542 एम० एम० ए० हैदरी, इन्फैन्ट्री ।  
 55543 एम० डीसूजा, इन्फैन्ट्री ।  
 55544 के० एस० नारायणन, आर्टी ।  
 55545 एस० आर० दत्ता, ए० डी० आर्टी ।  
 55546 एस० डी० पवार, ए० एस० सी० ।  
 55547 बी० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 55548 के० सिंह, ए० एस० सी० ।  
 55549 आर० डी० एस० बिल्लावारिया, ए० सी० ।  
 55550 एस० रोहिल्ला, सिग्नल्स ।  
 55551 एन० आनन्द, इन्फैन्ट्री ।  
 55552 बी० भारद्वाज, इन्जीनियर्स ।  
 55553 जी० पी० रामचन्द्र, ए० सी० ।  
 55554 आर० राणा, ई० एम० ई० ।  
 55555 राब्बी जार्ज, ए० डी० आर्टी ।  
 55556 डी० मिश्रा, ए० डी० आर्टी ।  
 55557 ए० चौधरी, ए० ओ० सी० ।  
 55558 के० बी० जोगलेकर, इन्फैन्ट्री ।  
 55559 एस० के० ममगैन, आर्टी ।  
 55560 एस० एस० घानेकर, आर्टी ।  
 55561 पी० के० खण्डूरी, इन्फैन्ट्री ।  
 55562 पी० के० मिश्रा, आर्टी ।  
 55563 एस० एस० कदम, ए० एस० सी० ।  
 55564 जे० कुमार, आर्टी ।  
 55565 बी० एस० चीमा, ए० सी० ।  
 55566 एस० जेड० ए० रिजवी, इन्फैन्ट्री ।  
 55567 पी० जे० प्रभाकरन, सिग्नल्स ।  
 55568 एस० पाण्डेय, इन्फैन्ट्री ।  
 55569 डब्ल्यू० पी० नाथ, आर्टी ।  
 55570 एस० वर्मा, इन्फैन्ट्री ।  
 55571 ए० परमार, इन्फैन्ट्री ।  
 55572 पमलजीत, इन्जीनियर्स ।  
 55573 एस० यादव, आर्टी ।  
 55575 आर० चौधरी, इन्फैन्ट्री ।  
 55576 ए० श्रीवास्तव, ए० डी० आर्टी ।  
 55577 ए० शर्मा, ए० सी० ।  
 55578 बी० वधवार, ए० डी० आर्टी ।  
 55579 ए० सिंह आर्टी ।

55580 पी० कालरा, आर्टी ।  
 55582 एम० के० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 55583 एल० के० निषाद, इन्फैन्ट्री ।  
 55584 सी० पी० स्माईल्स, इन्फैन्ट्री ।  
 55585 पी० हनी, ई० एम० ई० ।  
 55586 टी० कुमार, ए० ओ० सी० ।  
 55587 एम० एम० एस० मील, इन्फैन्ट्री ।  
 55588 जे० एल० श्रीनिवासन, इन्जीनियर्स ।  
 55589 बी० कुमार, इन्फैन्ट्री ।  
 55590 ए० राणा, ए० एस० सी० ।  
 55591 एच० सावन्त, इन्फैन्ट्री ।  
 55592 एस० चौहान, ए० ओ० सी० ।  
 55593 ए० के० यादव, ए० डी० आर्टी ।  
 55594 बाई० सेठी, ए० डी० आर्टी ।  
 55595 एम० वर्मा, इन्फैन्ट्री ।  
 55596 ए० त्रिपाठी, ई० एम० ई० ।  
 55597 बाई० नन्दल, आर्टी ।  
 55598 आर० पठानिया, इन्फैन्ट्री ।  
 55599 जे० शर्मा, ए० एस० सी० ।  
 55600 एस० के० धीमन, इन्फैन्ट्री ।  
 55601 ए० त्यागी, इन्फैन्ट्री ।  
 55602 एस० सिंह, आर्टी ।  
 55603 एस० कुमार, आर्टी ।  
 55604 एच० पाण्डेय, इन्जीनियर्स ।  
 55605 बी० एस० आर० एस० नैयर, इन्फैन्ट्री ।  
 55606 जे० एस० प्रसाद, आर्टी ।  
 55607 के० आर० आर० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 55608 बी० मिश्रा, ए० सी० ।  
 55609 ए० एस० बाजवा, ए० डी० आर्टी ।  
 55610 आर० के० गुप्ता, ई० एम० ई० ।  
 55612 ए० एस० नसीम, इन्फैन्ट्री ।  
 55613 एस० शेखर, इन्जीनियर्स ।  
 55614 आर० शर्मा, ए० एस० सी० ।  
 55615 आर० कुमार, ई० एम० ई० ।  
 55616 ए० के० सिंह, सिग्नल्स ।  
 55618 आर० एल० पिल्लै, इन्जीनियर्स ।  
 55619 जी० नौटियाल, आर्टी ।  
 55620 आर० गोयत, ए० एस० सी० ।  
 55621 एस० शुक्ला, इन्फैन्ट्री ।

- 55622 एस० चन्दर, इन्फैन्ट्री।  
 55623 के० राय, इन्फैन्ट्री।  
 55624 ए० गनेश, इन्फैन्ट्री।  
 55625 डी० आर० जोशी, ए० ओ० सी०।  
 55627 एस० के० सिंह, इन्फैन्ट्री।

—09 नवम्बर 2000।

- 55436 एन० एस० चौहान, इन्फैन्ट्री।  
 55437 जे० मान, ए० डी० आर्टी।  
 55438 एच० एस० राय, ए० सी०।  
 55439 ए० सिंह, इन्फैन्ट्री।  
 55440 विजय मिनम, ई० एम० ई०।  
 55441 आर० के० गोदरा, ए० एस० सी०।  
 55442 पी० त्रिपाठी, ए० सी०।  
 55443 एम० हेर, इन्फैन्ट्री।  
 55444 ए० त्रिपाठी, मेक इन्फैन्ट्री।  
 55445 एन० शिवकुमार, इंजीनियर्स।  
 55447 आर० जामवाल, इंजीनियर्स।  
 55448 वी० एस० ठाकुर, ए० डी० आर्टी।  
 55449 एस० के० मल्होत्रा, आर्टी।  
 55450 एस० कुमार, इन्फैन्ट्री।  
 55451 आर० डी० शर्मा, इन्फैन्ट्री।  
 55452 अतुल गोयल, ए० एस० सी०।  
 55453 एस० एस० बिष्ट, इन्फैन्ट्री।  
 55454 एच० सिंह, सिगनल्स।  
 55455 वी० एस० बोरा, इन्फैन्ट्री।  
 55456 वी० रोशन, मेक इन्फैन्ट्री।  
 55457 डी० त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री।  
 55458 के० एस० बघवार, इन्फैन्ट्री।  
 55459 वाई० संग्राम, इन्फैन्ट्री।  
 55460 वी० एस० राव, आर्टी।  
 55461 डी० एम० भोसले, आर्टी।  
 55462 एस० शर्मा, ए० एस० सी०।  
 55463 जे० निनान, आर्टी।  
 55464 आर० के० शर्मा, इन्फैन्ट्री।  
 55465 एन० सलाथिया, आर्टी।  
 55466 आर० जसरोटिया, इन्फैन्ट्री।  
 55467 वी० एस० सिद्धू, ए० डी० आर्टी।  
 55468 आर० वर्मा, इन्फैन्ट्री।

- 55469 टी० ई० डैनियल, ए० एस० सी०।  
 55470 एम० तेजपाल, ए० एस० सी०।  
 55471 एस० डी० पटिदार, सिगनल्स।  
 55472 एस० शर्मा, आर्टी।  
 55473 आर० के० शुक्ला, इन्फैन्ट्री।  
 55474 एम० खोखरन, इन्फैन्ट्री।  
 55475 डी० एस० शुक्ला, आर्टी।  
 55476 ए० कुमार, इन्फैन्ट्री।  
 55477 एस० एस० राठौर, इन्फैन्ट्री।  
 55478 वी० सोधी, ए० एस० सी०।  
 55479 के० पी० सिंह, ई० एम० ई०।  
 55480 एस० के सलारिया, इन्फैन्ट्री।  
 55481 एस० डी० दुबे, ए० एस० सी०।  
 55482 आर० ईशरत, ए० सी०।  
 55483 एस० के० श्रीवास्तव, आर्टी।  
 55484 एन० एस० रमेश, ई० एम० ई०।  
 55485 एस० जोशी, इन्फैन्ट्री।  
 55486 आर० के० सुन्दरियाल, इंजीनियर्स।  
 55487 के० सिंह, इन्फैन्ट्री।  
 55488 एम० सिंह, ए० सी०।  
 55489 ए० के० विकरा, ए० एस० सी०।  
 55490 जे० सन्धू, ए० ओ० सी०।  
 55491 ए० सिन्हा, इन्फैन्ट्री।  
 55492 आर० कार, आर्टी।  
 55493 ए० के० दीक्षित, ए० डी० आर्टी।  
 55494 ए० सिंह, आर्टी।

—26 अप्रैल 2000।

- आई० सी० 55340 ललित शर्मा, इन्फैन्ट्री।  
 आई० सी० 55341 पी० के० सिंह, ए० डी० आर्टी।  
 आई० सी० 55342 ए० कुमार, ए० एस० सी०।  
 आई० सी० 55343 एस० थापा, इन्फैन्ट्री।  
 आई० सी० 55344 पी० के० तिवारी, ए० सी०।  
 आई० सी० 55345 आर० दीपकर इन्फैन्ट्री।  
 आई० सी० 55346 एस० सिन्धू, इन्फैन्ट्री।  
 आई० सी० 55347 एस० चौधरी, सिगनल्स।  
 आई० सी० 55348 पी० के० मेहता, इन्फैन्ट्री।  
 आई० सी० 55349 एस० वर्मा, आर्टी।  
 आई० सी० 55350 आर० एस० यादव, ए० सी०।  
 आई० सी० 55351 ए० एस० सन्धू, इन्फैन्ट्री।

आई० सी० 55352 एन० जी० आनन्द, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55353 एस० बी० मलागी, ए० डी० आर्टी ।  
 आई० सी० 55354 जे० पी० एस० चौहान, ए० एस० सी० ।  
 आई० सी० 55355 एच० चीमा, मेक इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55356 आर० यादव, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55357 डी० गुप्ता, आर्टी ।  
 आई० सी० 55359 जे० कुमार, ए० एस० सी० ।  
 आई० सी० 55360 डी० खीची, ए० सी० ।  
 आई० सी० 55361 एम एम एस मन्हस, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55362 एस० मेहता, आर्टी० ।  
 आई० सी० 55363 आर० अरोड़ा, आर्टी० ।  
 आई० सी० 55364 एम० सी० अईयप्पा, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55365 बी० के० वर्मा, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55366 आर० एस० पठानिया, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55367 आर० डी० सिंह, ए० डी० आर्टी ।  
 आई० सी० 55368 आर० कुमार, ए०एस०सी० ।  
 आई० सी० 55369 एन० पन्त, ए०एस०सी० ।  
 आई० सी० 55370 ए०एस० बैन्स, ए०सी० ।  
 आई० सी० 55371 ए० मिश्रा, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55372 एस० पी०एस० बाली, सिगनल्स ।  
 आई० सी० 55373 ई०ई० राज, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55374 जे० सिंह, आर्टी० ।  
 आई० सी० 55375 आर० लथार, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55376 ए० एस० सनासम, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55377 बी० कुमार, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55378 आर० शर्मा, मेक० इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55379 टी०जे० चेची, मेक० इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55380 एम०जे० मस्ताना, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55381 के०डी० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55382 आर० पाण्डेय, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55383 जे०पी० मिश्रा, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55384 बी०बी० सावलगे, ए०एस०सी० ।  
 आई० सी० 55385 ए० वर्मा, ए० सी० ।  
 आई० सी० 55386 ए०बी० शेन्दे, आर्टी० ।  
 आई० सी० 55388 बी० शर्मा, ए०डी० आर्टी० ।  
 आई० सी० 55389 बी०पी० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55390 आर० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55391 एन०के० पाल, सिगनल्स ।

आई० सी० 55392 ए० यादव, ए०डी० आर्टी० ।  
 आई० सी० 55393 ए०के० नरायण, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55395 आर० लोध, ए०डी० आर्टी० ।  
 आई० सी० 55396 ए० यादव, ई०एम०ई० ।  
 आई० सी० 55397 बी०के० छौंकर, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55398 जे० थीमस, इंजीनियर्स ।  
 आई० सी० 55399 आर० पट्ट, ए०सी० ।  
 आई० सी० 55400 जी०बी०एम०के० राव, आर्टी० ।  
 आई० सी० 55401 बी० चटर्जी, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55402 डी० गुहानी, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55404 सी०पी० उन्नीकृष्णन, ए०ओ०सी० ।  
 आई० सी० 55405 एस० वर्गीस, सिगनल्स ।  
 आई० सी० 55406 आर० एस० वाचेर, ए०एस०सी० ।  
 आई० सी० 55407 आर० गोड, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55408 जी० आतमाराम, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55409 के० राव, इन्फैन्ट्री ।  
 आई० सी० 55410 ए० दत्ता, ए०एस०सी० ।  
 आई० सी० 55411 आर० शुक्ला, आर्टी० ।  
 55648 लोकेश कुमार, इन्फैन्ट्री ।  
 55649 एम० सिंह, ए०डी० आर्टी० ।  
 55650 एस०एस० चीमा, ए०सी० ।  
 55651 एम० त्रिपाठी, ए०डी० आर्टी० ।  
 55652 पी० सूबा, इन्फैन्ट्री ।  
 55653 एन०जी० सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 55654 विक्रम चन्देल, इन्फैन्ट्री ।  
 55655 जे०एस० बरार, ए०एस०सी० ।  
 55656 कुशल दीप, इंजीनियर्स ।  
 55657 बी०एस० राय, आर्टी० ।  
 55658 मीसेन्द्र कुमार, आर्टी० ।  
 55659 इन्दर पाल सिंह, इन्फैन्ट्री ।  
 55660 अमित भाटी, सिगनल्स ।  
 55661 अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री ।  
 55662 एस०के० त्रिपाठी, ए०ओ०सी० ।  
 55663 के० पी०मिश्रा, इन्फैन्ट्री ।  
 55664 रोहित नरूला, मेक० इन्फैन्ट्री ।  
 55665 एच०एस० राठीर, इन्फैन्ट्री ।  
 55666 अनिल ठाकुर, ए०एस०सी० ।  
 55667 विशाल बहिल, इन्फैन्ट्री ।  
 55669 राजेश देसवाल, आर्टी० ।



55670 नारायण सिंह, आर्टी०  
 55671 बी०एम० सिंह, आर्टी०  
 55672 अमित सरकार, इन्फैन्ट्री  
 55673 नरपत सिंह, इंजीनियर्स  
 55674 अरुण अवस्थी, इन्फैन्ट्री  
 55675 एम० अश्विन, ई०एम०ई०  
 55676 आर० रैना, ई०एम०ई०  
 55677 आर० के० चौधरी, ए०सी०  
 55678 जी० कामेश, ए०ग्रो०सी०  
 55680 एन० भण्डारी, ई०एम०ई०  
 55681 विनीत मैगदम, ए०एस०सी०  
 55682 एस०एस० राठी, मेक० इन्फैन्ट्री  
 55683 बी० एस० अधाना, इन्फैन्ट्री  
 55684 एस०पी० यादव, इन्फैन्ट्री  
 55685 सुदीप मिश्रा, आर्टी०  
 55686 राजेश यादव, इंजीनियर्स  
 55687 सुमीत कादियन, ए०सी०  
 55688 एच०एस० कटोच, ई०एम०ई०  
 55690 जी०एस० चुन्दावत, इन्फैन्ट्री  
 55691 संजय ओझा, ए०एस०सी०  
 55692 अतुल सूरी, इन्फैन्ट्री  
 55693 हरनेक सिंह, ए०ग्रो०सी०  
 55695 बी०एस० शेखावत, आर्टी०  
 55697 ए०एच०एस० संधू, ए०सी०  
 55699 सतीश बी०एस०, ई०एम०ई०  
 55700 इन्मैनुएल, तमन्ग, आर्टी०  
 55701 पी० सेन, ए०एस०सी०  
 55702 जे बी एस परिहार, मेक इन्फैन्ट्री  
 55703 राहुल दत्ता, ए डी आर्टी  
 55704 मुखबीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 55705 एस के बलिश, ए सी  
 55706 एच एस अहलवालिया, इंजीनियर्स  
 55707 जगदीप प्रताप, इन्फैन्ट्री  
 55709 दीपकर जिठा, ए सी  
 55710 अभिषेक उनियाल, ए सी  
 55712 बी एम एस परिमार, आर्टी  
 55714 पीयूष भारद्वाज, इन्फैन्ट्री  
 55715 रजनीश धर, ए एस सी

55716 आर एस लेहल, इन्फैन्ट्री  
 55717 एस के राणा, आर्टी  
 55719 अजय वन्दल, ए एस सी  
 55720 के के सहारन, इंजीनियर्स  
 55722 संजीव कुमार, इंजीनियर्स  
 55724 ए० के० रथ, ई०एम०ई०  
 55725 सूर्य मुखर्जी, इन्फैन्ट्री  
 55727 विकास कुमार, इंजीनियर्स  
 55728 आर के मिश्रा, ई एम ई  
 55729 जे पी सेलेस्तीन, मेक इन्फैन्ट्री  
 55730 एस एस भट्टयाल, ए सी  
 55731 रॉविन मैथ्यू, ए एस सी  
 55733 एस चक्रवर्ती, आर्टी  
 55734 ए० के० तिवारी, ए डी आर्टी  
 55735 सम्राट गौतम, आर्टी  
 55737 ए० के० चौहान, एग्रोसी  
 55739 के एस जयन्धन, ए डी आर्टी  
 55740 फारुकी रजा, इन्फैन्ट्री  
 55741 आर के द्विवेदी, आर्टी  
 55742 अभिषेक दास, इन्फैन्ट्री—24 अप्रैल, 2001।

के एस वर्मा,  
 संयुक्त निदेशक,  
 एमएस-8सी

सं० 142, दिनांक 05 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति, निम्न-  
 लिखित पदोन्नतियों करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर मे ले० कर्नल के मूल रैंक में

(समयमान) द्वारा

बी एन पट्टनायक (आईसी-40239), एग्रोसी—19 दिसम्बर  
 2001।

के एस सदासिवन (एसएल-02798), एस एल (आरओ)—  
 27 जुलाई, 2001।

के टी मैथ्यू (आई सी-39981), इन्फैन्ट्री—19 दिसम्बर,  
 2001।

पी नायक (एसएल-28833) एस एल (टैक)—27  
 जुलाई 2001।

एस एस ब्रक्शी (आईसी-37799) एग्रोसी—12 नवम्बर  
 2001।

एम सी आर नायर (आईसी-37908) ए एस सी—  
27 अप्रैल 2002।

ए कुमार (आई सी-37905), एओ सी—27 अप्रैल,  
2002।

आर के पाण्डे (आई सी-40236), ए डी आर्टी—19  
दिसम्बर 2001।

बी सिंह (आई सी-40077) एओसी—19 दिसम्बर  
2001।

एन चोपड़ा (आई सी-40252) आर्टी—19 दिसम्बर  
2001।

एस भट्टाचार्या (आई सी-37916) आर्टी—27 अप्रैल,  
2002।

पी के रोयल (आई सी-40459) इन्फेन्ट्री—12 जून,  
2002।

पी के दास (आई सी-40420) एएससी—12 जून,  
2002।

पी श्रीवास्तव (आईसी-37884), एओसी—27 अप्रैल  
2002।

ए कुमार (आईसी-40234) आर्टी—19 दिसम्बर 2001।

जी जोर्ज (आईसी-40611) इन्फेन्ट्री—12 जून 2002।

एस एस भुल्लर (आई सी-40622) इन्फेन्ट्री—12 जून  
2002।

आर चोपड़ा (आईसी-40461) इन्फेन्ट्री—12 जून 2002।

बी० कुमार (आईसी-40351), इन्फेन्ट्री—12 जून  
2002।

पी० कुमार (आईसी-39310), इन्फेन्ट्री—13 दिसम्बर  
2000।

टी० डी० प्रसाद (आईसी-40650) इन्फेन्ट्री—12 जून  
2002।

एन० कुमार (आईसी-40646), ए ओ सी—12 जून  
2002।

एस० पी० शर्मा (आईसी-40455), एएससी—12 जून  
2002।

जे० कुमार (आईसी-40560), सिम्स—12 जून 2002।

शशि शंकर सिन्हा,  
उप निदेशक, सेना सचिव

(नौसेना शाखा)

सं० 143, दिनांक 04 जनवरी 2003—महामहिम  
राष्ट्रपति निम्नलिखित स्टेनोग्राफर-श्रेणी प्रथम को उनके  
नाम के सामने दिए गए दिनांक से प्राईवेट सैक्रेटरी के  
पद पर नियुक्त करते हैं।

(क) श्री मोहम्मद यूनूस—27 सितम्बर 2002।

(ख) श्री सी० एच० चिन्नी कृष्णा—29 नवम्बर,  
2002।

उपरोक्त दोनों अधिकारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा  
अवधि में रहेंगे।

बी० एस० बाजवा  
कमोडोर निदेशक असैनिक कार्मिक

वायु सेना

सं० 144, दिनांक 05 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियां मूल रैंक में करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

मिस निवेदिता राय (25401), मिस शिरोनी कुलकर्णी,  
(25402)—19 दिसम्बर 2002 से।

प्रशासन शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

अभिलाशा विष्ट (25181)—20 जून 2002 से।

फ्लाईंग अफसर एन० जे० रेड्डी (24995)—15 जुलाई,  
2002।

मिस रीना गुप्ता (25404), मिसेज सौरभ सूद  
(25405), मिसेज मिनाक्षी नियम (25406), मिसेज  
संगीता कठैत (25407), मिस निधि जुयाल (25408),  
मिस निधि अशवाल (25409), मिसेज ममता सिंह यादवा  
(25410)—19 दिसम्बर 2002।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

मिस शाकिनी आनन्द (25411) मिसेज पूजा मलिक  
(25412), मिसेज कामना खतरी (25413), मिस  
सुमिशा प्रधान (25414), मिस प्रीति असवाल (25415)  
—19 दिसम्बर 2002 से।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

मिसेज श्वेता तलवार (25416), मिसेज मिरोनालिनी  
सिन्हा (25417), मिसेज कविता कथूरिया चूग (25418)  
—19 दिसम्बर 2002 से।

एस० बी० कुटे,  
स्क्वाड्रन लीडर,  
ए डी पी ओ 3 (डी)

## सेना शाखा

सं० 145, दिनांक 05 जनवरी, 03—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 24-09-2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान के पद पर

सरला गुरमीत सिंह, एमबीबीएस (एमएस-13381-एल) (अब एमआर-07794 वाई), एएमसी, 12-01-1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12-07-1998 से दी जायेगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09-03-2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

## सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

अमित सेठी, एम बी बी एस (एमएस-13480 एन) (अब 75680 जेड) (एमआर-07790 एच), ए एम सी, 02-03-1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18-12-99 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 06-12-2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान के पद पर

चन्द्र प्रताप सिंह एमबीबीएस (एमएस-13532 वाई) (अब एमआर-0713 वाई), एएमसी, 08-11-1997, (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05-02-2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04-12-2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

पी०के० श्रीवास्तव, एमबीबीएस (एमएस-12866-एफ) (अब 75606-एफ) (एमआर-07792-एच), ए एम सी, 04-01-1996, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 04-01-1994 से दी जायेगी इसमें एमडी (जनरल मेडिसिन) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जायेगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12-7-1997 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

के बी एन एस बीड  
ब्रिगेडियर/उप महानिदेशक (कार्मिक)

## सेना सचिव शाखा

सं० 146, दिनांक 04 जनवरी 03—राष्ट्रपति, सहर्ष ले० ज० एस०के० जैन, पीबीएसएम, एबीएसएम, बीएसएम (आईसी-13954) को 31 दिसम्बर 2002 (अपराह्न) से ईएमडी के कर्नल कमान्डेंट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

राष्ट्रपति, सहर्ष जनरल एस० पदमानाभन, पीबीएसएम, एबीएसएम, बीएसएम (आईसी-11859) को 31 दिसम्बर 2002 अपराह्न से आर्टिलरी रेजिमेंट के कर्नल कमान्डेंट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

एन मरियमन  
संयुक्त निदेशक एम एस (एक्स)

## वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

## रक्षा वैमानिक गुणता आश्वासन सेवा

सं० 147, दिनांक 05 जनवरी 03—श्री एन० राजा-गोपालन; निदेशक मुख्यालय वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय 19 नवम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से सेवा से स्वैच्छिक तौर पर सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

बी० सेतु माधव  
अवर सचिव

## वायु शाखा

## आई (एल) शाखा

सं० 148, दिनांक 05 जनवरी 2003—राष्ट्रपति के निम्नांकित अफसरों को सेवा निवृत्ति की अनुमति प्रदान की है :—

## भारतीय वायु सेना

## एफ(एन) शाखा

विंग कमांडर एम एफ सहिकी (12427)—30 अप्रैल 99 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर के० हालदार (17186)—31 मार्च 99 (एडी)

## आई (एम) शाखा

विंग कमांडर जयदेव देसाई (15477)—31 दिसम्बर 99 (एडी)

विंग कमांडर पी० के० मुकर्जी (14610)—31 मई 99 (एडी)

विंग कमांडर डी०एन० गुप्ता (14205)—31 जनवरी 99 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर ए०के० कश्यप (15648)—28 फरवरी 99 (एडी)

विंग कमांडर डी० मोहन (15094)—31 जुलाई 99 (एडी)

विंग कमांडर बी० मनन (15109)—30 अप्रैल 99 (एडी)

विंग कमांडर एस०सी० सिन्धवानी (14309)—31 जनवरी 99 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर पी० रविन्द्रा (19637)—28 फरवरी 99 (एडी)

## एडम शाखा

विंग कमांडर के०पी० पटनायक (13658)—31 मई 99 (एडी)

## एमईटी शाखा

विंग कमांडर आर०सी० सूद (13009)—10 मई 99 (एडी)

ए० सेन गुप्ता

विंग कमांडर

डी डी पी ओ-3 (एफ)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th March 2003

No. 131, dated 28th January 2003.—Consequent on being approved for appointment as Additional Secretary in the M/o Home Affairs, the services of Shri Kanwar Pratap Singh, IAS (KN : 71), Joint Secretary, Department of Defence Production and Supplies, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Home Affairs w.e.f. 26-12-2002 (FN).

The President is pleased to appoint Shri Sanjay Prasad, IAS (GJ : 86) on transfer from the Govt. of Gujarat as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 30-12-2002 (FN) up to 29-12-2007 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Tanveer Ahmed, IRAS (86) on transfer from the Ministry of Railways as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 7-1-2003 (AN) up to 7-1-2008 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint the following officers of Merged Grade 'A&B' (designated as Private Secretary) (officiating as PPS on ad hoc basis) of CSSS, cadre of Ministry of Defence as Principal Private Secretaries in the same Ministry in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 on regular basis, with effect from the forenoon of 10-12-2002, until further orders, consequent on inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service for the year 1998.

1. Shri Satinder Kumar

2. Shri B. K. Banerjee

3. Sunil Kumar

4. Radhey Shyam

V. SARASWATHY, Under Secy.

## ARMY BRANCH

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 132, dated 29 Jan 03.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of AFHQ Civil Service as Deputy Director under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 08 November, 2002 to 06 May, 2003 or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

1. Shri Ranen Kumar (DOB : 11-01-1965)

2. Shri D. K. Chakraborty (DOB : 16-04-1954)

3. Shri HMS Tanwar (DOB : 26-02-1956)

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

## DTE GEN OF QUALITY ASSURANCE

The President is pleased to appoint Shri Santanu Das, Asstt. (Group 'B' Non Gazetted) to the grade of Section Officer (Group 'B' Gazetted 'B' Gazetted in the AFHQ Civil Service with effect from 01-10-2002 (F/N) for a period upto 24-2-2003.

The appointment is subject to any modification that may become necessary in the course implementation of direction of Hon'ble High Court of Delhi/Central Administrative Tribunal and also any other court case that may have a bearing on the seniority in the grade of Assistant.

SANTOSH DASGUTA

Dy. Chief Administrative Officer(A)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 133, dated 04 Jan 03.—President is pleased to appoint Maj Gen Rajinder Singh, AVSM, VSM (IC-16953) as Colonel Commandant of the Regiment of Artillery with effect from 01 Jan 2003 (F/N).

The President is pleased to appoint Maj Gen R. S. Batra, VSM (IC-16925) as Colonel Commandant of the Corps of Electronics & Mechanical Engineering with effect from 01 Jan 2003 (F/N).

N. MARIAPPAN  
Jt. Dir.  
MS(X)

## NAVY BRANCH

## NAVAL HEADQUARTERS

No. 134, dated 29 Jan 03.—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rule 2001 for a period from 28-11-2002 to 24-2-2003 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

- (a) Shri Jagmohan Swarup
- (b) Smt Vidya Kataria

2. This appointment is made purely as a gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001 for a period from 27-9-2002 to 24-2-2003 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

- (a) Smt. Prem Lata Oberoi
- (b) Shri Umrao Singh Bhindware
- (c) Shri Khushal Chandra

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA  
Dy Chief Administrative Officer (A)

No. 135, dated 05 January 03.—The President is pleased to make the following Appointment in the Engineering Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/228/US(P)/D (N-II) dated 02nd February, 2001 from the date shown against the name :—

To be sub Lt (on Probation)

## DIRECT ENTRY SCHEME (ENGINEERING BRANCH)

Sl. No., Name, Personal Number, Type Commission, Date of Commission

Marathe Prasad Vijay (42070-N) SSC, 04-01-1999.

The President is pleased to make the Following Appointment in the Electrical Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/711/US(P)/D(N-II) dated 20th April, 2001 from the date shown Against each name :—

To be Sub Lt (On Probation)

## DIRECT ENTRY SCHEME (ELECTRICAL BRANCH)

Name, Personal Number Type Commission, date of Commission

Desai Vikram Singh VA (51653-T) SSC, 05-07-99

Annamalai Rooban (51655-Y) SSC, 05-07-99.

ANIL KUMAR  
Commander  
DDMPR(R&R)  
Naval Hqrs

## ARMY HEADQUARTERS

(History Division)

No. 136, dated 29th January 03.—The President is pleased to promote Sh. Y. C. Bhargava, Research Assistant as Assistant Director in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 01-01-2003.

(Authority : CAO/P-2 Note No. A/97357/A/CAO/P-2 dated 01-01-2003).

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. CAO (Admin.)

## ARMY BRANCH

No. 137,, dated 03rd January 03.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and dates specified :—

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Malwinder Singh (JC-136012P), Formerly Sikh Regt, 28 Feb 2001.

Subedar Maojr Amrik Singh (JC-142991P), Formerly Sikh LI, 28 Feb 2001.

Subedar Major Mohan Singh (JC-132384H), Formely Garhwal Rifles, 02 Mar 2001.

Subedar Major Sant Kumar Pandey (JC-160975A), Formely Bihar Regt, 03 Mar 2001.

In the rank of Subedar (GD,

Subedar Binod Kumar Rai (JC-147554Y), Formerly 11 Gorkha Rifles, 08 Nov 2000.

Subedar Hira Lal Karki (JC-163400W), Formely Corps of Signals, 08 Nov 2000.

Subedar Chimam Lal, SM (JC-185213X), Formerly Dogra Regt, 10 Nov 2000.

Subedar Mahadeo Mane (JC-168599M), Formerly Mahar Regt, 28 Feb 2001.

Subedar Bhakta Bahadur Gurung (JC-179483W), Formerly 5 Gorkha Rifles, 28 Feb 2001.

Subedar Manohar Jadhav (JC-130816N), Formerly Maratha LI, 28 Feb 2001.

Subedar Balbir Singh (JC-117300M), Formerly Jat Regt, 28 Feb 2001.

Subedar Raj Pal (JC-206190X), Formerly Artillery, 28 Feb 2001.

Subedar Bhanwar Lal (JC-448178F), Formerly Grenadiers, 28 Feb 2001.

Subedar Uttam Bahadur Chand (JC-159297Y), Formerly JAK Rifles, 02 Mar 2001.

Subedar Krishan Kumar Sharma (JC-139073X), Formerly Kumaon Regt, 02 Mar 2001.

Subedar Bhagya Narain Jha (JC-156803N), Formerly Brigade of the Guards, 02 Mar 2001.

Subedar Hardev Singh (JC-186023X), Formerly Corps of Signals, 02 Mar 2001.

Subedar Krishna R (JC-177329Y), Formerly MEG, 02 Mar 2001.

Subedar Parkash Chand (JC-155040W), Formerly Grenadiers, 03 Mar 2001.

## In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Jank Raj (JC-578054W), Formerly JAK Rifles, 06 Jul 2000.

Naib Subedar Bal Ram (108045H), Formerly Indian Navy, 08 Nov 2000.

Naib Subedar Sher Singh (JC-810113X), Formerly INT Corps, 09 Nov 2000.

G. K. CHANANA  
Dy. Secy.

## ARMY BRANCH

No. 138, dated 03rd January 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

## To be Nb Sub (GD)

\*Hav Balwant Singh Rawat (4051967K now JC-841305W), 13 June 2002.

\*Hav Ganesh Singh (4249885M now JC-841313P), 14 Aug 2002.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2002 without effect on pay and allowances).

\*\*Hav Moti Singh Rana (4051547K now JC-841344P), 04 Sep 2002.

\*\*Hav Badri Parshad Gupta (6899468A now JC-841345X), 09 Aug 2002.

\*\*Hav Joginder Singh (10313275H now JC-841346A), 01 Aug 2002.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allowances).

\*\*\*Hav Ramchandra Babu Redekar (10149412X now JC-841349N), 01 Sep 2002.

\*\*\*Hav CD Jose (10165114L now JC-841351L), 04 Sep 2002.

\*\*\*Hav Krush Nath Desai (10149644P now JC-841352N), 01 Sep 2002.

\*\*\*Hav Chet Ram (13727555X now JC-841353W), 02 Sep 2002.

\*\*\*Hav Sohan Singh (10196959L now JC-841354Y), 02 Sep 2002.

\*\*\*Hav Ram Chander (6327069H now JC-841355F), 02 Sep 2002.

\*\*\*Hav Sukhdev Singh (2461944X now JC-841356K), 01 Sep 2002.

† \*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

\* Hav KV Joseph (10165075-X now JC-841350-H), 09 Sep 2002.

\* Hav Gajendra Bahadur Pariyar (14205477-Y now JC-841358P), 03 Oct 2002.

\* Ramesh Kumar (14452140-L now JC-841359-X), 01 Oct 2002.

\* Hav MJ Rajan (8823859-K now JC-841360-M), 30 Oct 2002.

\* Hav Tirath Ram (10360887-L now JC-841361-P), 09 Oct 2002.

\* Hav P Premarajan (10289534-Y now JC-841362-X), 16 Oct 2002.

\* Hav Chandrashekar Shirshatti (10419987-W now JC-841363-A), 23 Oct 2002.

\* Hav Daya Chand (13661377-W now JC-841364-H), 23 Oct 2002.

\* Hav Satham Singh (1548002-F now JC-841365-L), 17 Oct 2002.

\* Hav Barnham Singh (1246404-F now JC-841366-N), 05 Oct 2002.

\* Hav Gopal Singh (4159376-M now JC-841367-W), 17 Oct 2002.

\* Hav C Vijaya Kumar Nair (10289422-Y now JC-841368-Y), 05 Oct 2002.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allowances).

\*\* Hav Laxman Singh (8823786-Y now JC-841369-F), 26 Nov 2002.

\*\* Hav Prabhakar Nayak (10258917-K now JC-841375-P), 07 Dec 2002.

\*\*\* Hav Ramchar Singh (10134210-Y now JC-841378-H), 11 Nov 2002.

\*\* Hav Shishpal Singh Bisht (4049931-M now JC-841382-L), 25 Nov 2002.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances).

\*\*\* Hav Syed Mohamed Abdul Salam (14208283-F now JC-841384-W), 02 Dec 2002.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

## To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Sukhdev Raj (JC-153551-F), 01 Dec 2001.

Subedar Kashmir Singh (JC-163893-H), 01 Feb 2002.

Subedar Ram Singh Yadav, SM (JC-123528-Y), 10 May 2002.

## To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Tej Kumar Thapa (JC-192496-M), 01 Dec 2001.

Nb Sub T Bhaskaran (JC-840368-M), 01 Jan 2002.

Nb Sub Mohan Parshad (JC-147383-X), 01 Feb 2002.

Nb Sub Man Bahadur Sunwar (JC-183387-Y), 01 Feb 2002.

Nb Sub Roshan Lal (JC-177896-F), 01 Feb 2002.

Nb Sub Ram Sarup (JC-152706-F), 01 Feb 2002.

Nb Sub Jai Karan (JC-142961-X), 01 Feb 2002.

Nb Sub Omkar Singh (JC-135683-M), 01 Feb 2002.

Nb Sub Rattan Chand (JC-139648-F), 01 Feb 2002.

Nb Sub Dalip Singh (JC-171138-N), 01 Feb 2002.

Nb Sub Hukam Chand (JC-202612-A), 01 Mar 2002.

Nb Sub Jale Singh (JC-840318-F), 01 Mar 2002.

Nb Sub Ram Singh (JC-840327-H), 01 Mar 2002.

Nb Sub Surendar Singh (JC-840315-N), 01 Mar 2002.

G. K. CHANANA  
Dy. Secy.

DEPARTMENT OF DEFENCE  
PRODUCTION & SUPPLIES

No. 139, dated 04 January 2003.—The President is pleased to make the following promotions/appointments :—

Shri NN Roy, Admin Officer of SQAB(A), Kolkata to be Offg. Senior Administrative Officer Grade-II at SQAB(SA),

Ichapur on probation for a period of 02 years with effect from 27-11-02 (F/N).

Shri Paul P. George, Technical Assistant of Ministry of Consumer Affairs, Deptt. of Food & Civil Supplies, Save Grain Campaign Regional Office, Bhopal to be Stores Officer at CPE, Itarsi for a period of 3 years with effect from 01-11-02 (F/N) on deputation basis.

Shri CH Jagadeeswara Rao, Charge-man-I of Ministry of Defence, CQA(EW), Secunderabad to be Stores Officer at CQA(S), Secunderabad for a period of 3 years with effect from 30-09-02 (F/N) on deputation basis.

Shri S Ravi Kumar, Section Officer (Adhoc) of Ministry of Social Justice & Empowerment, New Delhi to be Administrative Officer at CQA(L), Bangalore for a period of 3 years with effect from 10 Dec 2002 on deputation basis.

S. N. TRIPATHI  
Dy. Secy.

No. 140, dated 05 January 2003.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officer with effect from the date mentioned against their names :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Chandra Pratap Singh (MS-13532-Y) (MR-07813-Y), AMC/PC—27-11-2001.

Sarla Gurmeet Singh (MS-13381L) now (MR-07794Y), AMC, 12-7-2002.

To be Surg LT CDR

PK Srivastava (MS-12866F) (75606F) (MR-07792H), AMC, 4-1-1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Oct 1999 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled).

K.B.N.S. DOD  
Brigadier  
Dy. DGAFFMS (P)

No. 141, dated 04th January 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No. & Name

- 55531 DB Rai, Mech Inf, 9 Nov 2000.
- 55532 V Chauhan, Mech Inf, 9 Nov 2000.
- 55533 NS Mann, AC, 9 Nov 2000.
- 55534 DS Dhami, Inf, 9 Nov 2000.
- 55535 R Singh, Inf, 9 Nov 2000.
- 55536 H Singh, EME, 9 Nov 2000.
- 55537 S Malik, Mech Inf, 9 Nov 2000.
- 55538 K Dogra, ASC, 9 Nov 2000.
- 55539 A Kumar Arty, 9 Nov 2000.
- 55540 HS Rawat, AOC, 9 Nov 2000.
- 55541 S Kumar, Arty, 9 Nov 2000.
- 55542 MMA Wyderi, Inf, 9 Nov 2000.

55543 M Deouza, Inf, 9 Nov 2000.

55544 KS Narayanan, Arty, 9 Nov 2000.

55545 SR Dutta, AD Arty, 9 Nov 2000.

55546 SD Pawar, ASC, 9 Nov 2000.

55547 V Singh, Inf, 9 Nov 2000.

55548 K Singh, ASC, 9 Nov 2000.

55549 RDS Billaw Waria, AC, 9 Nov 2000.

55550 S Rohilla, Sigs, 9 Nov 2000.

55551 N Anand, Inf, 9 Nov 2000.

55552 V Bhardwaj, Engr, 9 Nov 2000.

55553 GP Ramchandra, AC, 9 Nov 2000.

55554 R Rana, EME, 9 Nov 2000.

55555 Robby George, AD Arty, 9 Nov 2000.

55556 D Mishra, AD Arty, 9 Nov 2000.

55557 A Chaudhry, AOC, 9 Nov 2000.

55558 KB Joglekar, Inf, 9 Nov 2000.

55559 SK Mangain, Arty, 9 Nov 2000.

55560 SS Ghanekar, Arty, 9 Nov 2000.

55561 PK Khunduri, Inf, 9 Nov 2000.

55562 PK Mishra, Arty, 9 Nov 2000.

55563 SS Kadam, ASC, 9 Nov 2000.

55564 J Kumar, Arty, 9 Nov 2000.

55565 BS Cheema, AC, 9 Nov 2000.

55566 SZA Rizvi, Inf, 9 Nov 2000.

55567 PJ Prabhakaran, Sigs, 9 Nov 2000.

55568 S Pandey, Inf, 9 Nov 2000.

55569 WP Nath, Arty, 9 Nov 2000.

55570 S Verma, Inf, 9 Nov 2000.

55571 A Parmar, Inf, 9 Nov 2000.

55572 Pamaljeet, Engr, 9 Nov 2000.

55573 S Yadav, Arty, 9 Nov 2000.

55575 R Chaudhary, Inf, 9 Nov 2000.

55576 A Srivastav, AD Arty, 9 Nov 2000.

55577 A Sharma, AC, 9 Nov 2000.

55578 V Badhwar, AD Arty, 9 Nov 2000.

55579 A Singh, Arty, 9 Nov 2000.

55580 P Ksira, Arty, 9 Nov 2000.

55582 MK Singh, Inf, 9 Nov 2000.

55583 LK Nishad, Inf, 9 Nov 2000.

55584 CP Smiles, Inf, 9 Nov 2000.

55585 P Hani, EME, 9 Nov 2000.

55586 T Kumar, AOC, 9 Nov 2000.

55587 MMS Meelu, Inf, 9 Nov 2000.

55588 JL Srinivasan, Engr, 9 Nov 2000.

55589 V Kumar, Inf, 9 Nov 2000.

55590 A Rana, ASC, 9 Nov 2000.

55591 H Sawant, Inf, 9 Nov 2000.

55592 S Chauhan, AOC, 9 Nov 2000.

55593 AK Yadav, AD Arty, 9 Nov 2000.

55594 Y Sethi, AD Arty, 9 Nov 2000.	55454 H Singh, Sigs, 26 Apr 2000.
55595 M Verma, Inf, 9 Nov 2000.	55455 BS Bora, Inf, 26 Apr 2000.
55596 A Tripathi, EME, 9 Nov 2000.	55456 V Rauthan, Mech Inf, 26 Apr 2000.
55597 Y Nandlal, Arty, 9 Nov 2000.	55457 D Tripathi, Inf, 26 Apr 2000.
55598 R Pathania, Inf, 9 Nov 2000.	55458 KS Badhwar, Inf, 26 Apr 2000.
55599 J Sharma, ASC, 9 Nov 2000.	55459 Y Sangram, Inf, 26 Apr 2000.
55600 SK Dhiman, Inf, 9 Nov 2000.	55460 VS Rao, Arty, 26 Apr 2000.
55601 A Tyagi, Inf, 9 Nov 2000.	55461 DM Bhosale, Arty, 26 Apr 2000.
55602 S Singh, Arty, 9 Nov 2000.	55462 S Sharma, ASC, 26 Apr 2000.
55603 S Kumar, Arty, 9 Nov 2000.	55463 J Ninan, Arty, 26 Apr 2000.
55604 H Pandey, Engr, 9 Nov 2000.	55464 RK Sharma, Inf, 26 Apr 2000.
55605 VSRS Nair, Inf, 9 Nov 2000.	55465 N Salathia, Arty, 26 Apr 2000.
55606 JS Prasad, Arty, 9 Nov 2000.	55466 R Jasrotia, Inf, 26 Apr 2000.
55607 KRR Singh, Inf, 9 Nov 2000.	55467 BS Sidhu, AD Arty, 26 Apr 2000.
55608 V Midha, AC, 9 Nov 2000.	55468 R Verma, Inf, 26 Apr 2000.
55609 AS Bajwa, AD Arty, 9 Nov 2000.	55469 TE Daniel, ASC, 26 Apr 2000.
55610 RK Gupta, EME, 9 Nov 2000.	55470 M Tejpal, ASC, 26 Apr 2000.
55612 AS Naseem, Inf, 9 Nov 2000.	55471 SD Patidar, Sigs, 26 Apr 2000.
55613 S Sekhar, Engr, 9 Nov 2000.	55472 S Sharma, Arty, 26 Apr 2000.
55614 R Sharma, ASC, 9 Nov 2000.	55473 RK Shukla, Inf, 26 Apr 2000.
55615 R Kumar, EME, 9 Nov 2000.	55474 M Khokhran, Inf, 26 Apr 2000.
55616 AK Singh, Sigs, 9 Nov 2000.	55475 DS Shukla, Arty, 26 Apr 2000.
55618 RL Pillai, Engr, 9 Nov 2000.	55476 A Kumar, Inf, 26 Apr 2000.
55619 G Nautiyal, Arty, 9 Nov 2000.	55477 SS Rathore, Inf, 26 Apr 2000.
55620 R Goyat, ASC, 9 Nov 2000.	55478 V Sondhi, ASC, 26 Apr 2000.
55621 S Shukla, Inf, 9 Nov 2000.	55479 KP Singh, EME, 26 Apr 2000.
55622 S Chander, Inf, 9 Nov 2000.	55480 SK Salaria, Inf, 26 Apr 2000.
55623 K Roy, Inf, 9 Nov 2000.	55481 SD Dubey, ASC, 26 Apr 2000.
55624 A Ganesh, Inf, 9 Nov 2000.	55482 R Ishrat, AC, 26 Apr 2000.
55625 DR Joshi, AOC, 9 Nov 2000.	55483 SK Srivastav, Arty, 26 Apr 2000.
55627 SK Singh, Inf, 9 Nov 2000.	55484 NS Ramesh, EME, 26 Apr 2000.
55436 NS Chauhan, Inf, 26 Apr 2000.	55485 S Joshi, Inf, 26 Apr 2000.
55437 J Mann, AD Arty, 26 Apr 2000.	55486 RK Sundriyal, Engr, 26 Apr 2000.
55438 HS Rai, AC, 26 Apr 2000.	55487 K Singh, Inf, 26 Apr 2000.
55439 A Singh, Inf, 26 Apr 2000.	55488 M Singh, AC, 26 Apr 2000.
55440 Bijup Ninam, EME, 26 Apr 2000.	55489 AK Chikara, ASC, 26 Apr 2000.
55441 RK Godara, ASC, 26 Apr 2000.	55490 J Sandhu, AOC, 26 Apr 2000.
55442 P Tripathi, AC, 26 Apr 2000.	55491 A Sinha, Inf, 26 Apr 2000.
55443 M Herr, Inf, 26 Apr 2000.	55492 R Kar, Arty, 26 Apr 2000.
55444 A Tripathi, Mech Inf, 26 Apr 2000.	55493 AK Dixit, AD Arty, 26th Apr 2000.
55445 N Sivakumar, Engr, 26 Apr 2000.	55494 A Singh, Arty, 26 Apr 2000.
55447 R Jamwal, Engr, 26 Apr 2000.	55340 Lalit Sharma, Inf, 14 Jan 2000.
55448 VS Thakur, AD Arty, 26 Apr 2000.	55341 PK Singh, AD Arty, 14 Jan 2000.
55449 SK Malhotra, Arty, 26 Apr 2000.	55342 A Kumar, ASC, 14 Jan 2000.
55450 S Kumar, Inf, 26 Apr 2000.	55343 S Thapa, Inf, 14 Jan 2000.
55451 RD Sharma, Inf, 26 Apr 2000.	55344 PK Tiwari, AC, 14 Jan 2000.
55452 Atul Goel, ASC, 26 Apr 2000.	55345 R Dipankar, Inf, 14 Jan 2000.
55453 SS Bisht, Inf, 26 Apr 2000.	55346 S Sindhu, Inf, 14 Jan 2000.



- 55347 S Chaudhary, Sigs, 14 Jan 2000.  
55348 PK Mehta, Inf, 14 Jan 2000.  
55349 S Verma, Arty, 14 Jan 2000.  
55350 RS Yadav, AC, 14 Jan 2000.  
55351 AS Sandhu, Inf, 14 Jan 2000.  
55352 NG Anand, Inf, 14 Jan 2000.  
55353 SB Malagi, AD Arty, 14 Jan 2000.  
55354 JPS Chauhan, ASC, 14 Jan 2000.  
55355 H Cheema, Mech Inf, 14 Jan 2000.  
55356 R Yadav, Inf, 14 Jan 2000.  
55357 D Gupta, Arty, 14 Jan 2000.  
55359 J Kumar, ASC, 14 Jan 2000.  
55360 D Khichi, AC, 14 Jan 2000.  
55361 MMS Manhas, Inf, 14 Jan 2000.  
55362 S Mehta, Arty, 14 Jan 2000.  
55363 R Arora, Arty, 14 Jan 2000.  
55364 MC Aiyappa, Inf, 14 Jan 2000.  
55365 VK Verma, Inf, 14 Jan 2000.  
55366 RS Pathania, Inf, 14 Jan 2000.  
55367 RD Singh, AD Arty, 14 Jan 2000.  
55368 R Kumar, ASC, 14 Jan 2000.  
55369 N Pant, ASC, 14 Jan 2000.  
55370 AS Bains, AC, 14 Jan 2000.  
55371 A Mishra, Inf, 14 Jan 2000.  
55372 SPS Bali, Sigs, 14 Jan 2000.  
55373 EE Raj, Inf, 14 Jan 2000.  
55374 J Singh, Arty, 14 Jan 2000.  
55375 R Lathar, Inf, 14 Jan 2000.  
55376 AS Sanasam, Inf, 14 Jan 2000.  
55377 B Kumar, Inf, 14 Jan 2000.  
55378 R Sharma, Mech Inf, 14 Jan 2000.  
55379 TJ Chechi, Mech Inf, 14 Jan 2000.  
55380 MJ Mastana, Inf, 14 Jan 2000.  
55381 KD Singh, Inf, 14 Jan 2000.  
55382 R Pandey, Inf, 14 Jan 2000.  
55383 JP Mishra, Inf, 14 Jan 2000.  
55384 VB Savalge, ASC, 14 Jan 2000.  
55385 A Verma, AC, 14 Jan 2000.  
55386 AB Shende, Arty, 14 Jan 2000.  
55388 V Sharma, AD Arty, 14 Jan 2000.  
55389 VP Singh, Inf, 14 Jan 2000.  
55390 R Singh, Inf, 14 Jan 2000.  
55391 NK Pal, Sigs, 14 Jan 2000.  
55392 A Yadav, AD Arty, 14 Jan 2000.  
55393 AK Narayanan, Inf, 14 Jan 2000.  
55395 R Lodh, AD Arty, 14 Jan 2000.  
55396 A Yadav, EME, 14 Jan 2000.  
55397 VK Chhaunkar, Inf, 14 Jan 2000.  
55398 J Thomas, Engrs, 14 Jan 2000.  
55399 R Pattu, AC, 14 Jan 2000.  
55400 GBMK Rao, Arty, 14 Jan 2000.  
55401 V Chatterji, Inf, 14 Jan 2000.  
55402 D Guhani, Inf, 14 Jan 2000.  
55404 CP Unni Krishnan, AOC, 14 Jan 2000.  
55405 S Varghese, Sigs, 14 Jan 2000.  
55406 RS Wachar, ASC, 14 Jan 2000.  
55407 R Gaur, Inf, 14 Jan 2000.  
55408 G Athmaram, Inf, 14 Jan 2000.  
55409 K Rao, Inf, 14 Jan 2000.  
55410 A Datta, ASC, 14 Jan 2000.  
55411 H Shukla, Arty, 14 Jan 2000.  
55648 Lokesh Kumar, Inf, 24 Apr 2001.  
55649 M Singh, AD Arty, 24 Apr 2001.  
55650 SS Cheema, AC, 24 Apr 2001.  
55651 M Tripathi, AD Arty, 24 Apr 2001.  
55652 P Subba, Inf, 24 Apr 2001.  
55653 NG Singh, Inf, 24 Apr 2001.  
55654 Vikram Chandel, Inf, 24 Apr 2001.  
55655 JS Brar, ASC, 24 Apr 2001.  
55656 Kushal Deep, Engr, 24 Apr 2001.  
55657 BS Rai, Arty, 24 Apr 2001.  
55658 Meetendra Kumar, Arty, 24 Apr 2001.  
55659 Inder Pal Singh, Inf, 24 Apr 2001.  
55660 Amit Bhati, Sigs, 24 Apr 2001.  
55661 Anil Kumar, Inf, 24 Apr 2001.  
55662 SK Tripathi, AOC, 24 Apr 2001.  
55663 KP Mishra, Inf, 24 Apr 2001.  
55664 Rohit Narula, Mech Inf, 24 Apr 2001.  
55665 HS Rathore, Inf, 24 Apr 2001.  
55666 Anil Thakur, ASC, 24 Apr 2001.  
55667 Vishal Bahil, Inf, 24 Apr 2001.  
55669 Rajesh Deswal, Arty, 24 Apr 2001.  
55670 Narayan Singh, Arty, 24 Apr 2001.  
55671 VM Singh, Arty, 24 Apr 2001.  
55672 Amit Sarkar, Inf, 24 Apr 2001.  
55673 Narpal Singh, Engrs, 24 Apr 2001.  
55674 Arun Awasthy, Inf, 24 Apr 2001.  
55675 S Ashwin, EME, 24 Apr 2001.  
55676 R Raina, EME, 24 Apr 2001.  
55677 RK Choudhary, AC, 24 Apr 2001.  
55678 G Kamesh, AOC, 24 Apr 2001.  
55680 N Bhandari, EME, 24 Apr 2001.  
55681 Vineet Magdum, ASC, 24 Apr 2001.  
55682 SS Rathee, Mech Inf, 24 Apr 2001.  
55683 BS Adhana, Inf, 24 Apr 2001.  
55684 SP Yadav, Inf, 24 Apr 2001.  
55685 Sudeep Misra, Arty, 24 Apr 2001.

55686 Rajesh Yadav, Engr, 24 Apr 2001.  
 55687 Sumit Kadian, AC, 24 Apr 2001.  
 55688 HS Katoch, EME, 24 Apr 2001.  
 55690 GS Chundawat, Inf, 24 Apr 2001.  
 55691 Sanjay Ojha, ASC, 24 Apr 2001.  
 55692 Atul Suri, Inf, 24 Apr 2001.  
 55693 Harnek Singh, AOC, 24 Apr 2001.  
 55695 VS Shekhawat, Arty, 24 Apr 2001.  
 55697 AHS Sandhu, AC, 24 Apr 2001.  
 55699 Satish BS, EME, 24 Apr 2001.  
 55700 Emmanuel Tamang, Arty, 24 Apr 2001.  
 55701 P Sen, ASC, 24 Apr 2001.  
 55702 JBS Parihar, Mech Inf, 24 Apr 2001.  
 55703 Rahul Dutta, AD Arty, 24 Apr 2001.  
 55704 Sukhbir Singh, Inf, 24 Apr 2001.  
 55705 SK Batish, AC, 24 Apr 2001.  
 55706 HS Ahluwalia, Engr, 24 Apr 2001.  
 55707 Jagdeep Pratap, Inf, 24 Apr 2001.  
 55709 Deepankar Zinta, AC, 24 Apr 2001.  
 55710 Abhishek Uniyal, AC, 24 Apr 2001.  
 55712 BMS Parmar, Arty, 24 Apr 2001.  
 55714 Piyush Bhardwaj, Inf, 24 Apr 2001.  
 55715 Rajnish Dhar, ASC, 24 Apr 2001.  
 55716 RS Lehal, Inf, 24 Apr 2001.  
 55717 SK Rana, Arty, 24 Apr 2001.  
 55719 Ajay Nandal, ASC, 24 Apr 2001.  
 55720 KK Saharan, Engr, 24 Apr 2001.  
 55722 Sanjeev Kumar, Engr, 24 Apr 2001.  
 55724 AK Rath, EME, 24 Apr 2002.  
 55725 Surya Mukherji, Inf, 24 Apr 2001.  
 55727 Vikas Kumar, Engrs, 24 Apr 2001.  
 55728 RK Mishra, EME, 24 Apr 2001.  
 55729 JP Celestine, Mech Inf, 24 Apr 2001.  
 55730 SS Bhatyal, AC, 24 Apr 2001.  
 55731 Robin Mathew, ASC, 24 Apr 2001.  
 55733 S Chakrabarty, Arty, 24 Apr 2001.  
 55734 AK Tiwari, AD Arty, 24 Apr 2001.  
 55735 Samrat Gautam, Arty, 24 Apr 2001.  
 55737 AK Chauhan, AOC, 24 Apr 2001.  
 55739 KS Jayandhan, AD Arty, 24 Apr 2001.  
 55740 Farooque Raza, Inf, 24 Apr 2001.  
 55741 RK Dwivedi, Arty, 24 Apr 2001.  
 55742 Abhishek Das, Inf, 24 Apr 2001.

No. 142, dated 05th January 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

### REGULAR ARMY

#### Permanent Commission

#### Major to be Substantive Lt Col (Time Scale)

BN Pattanaik (IC-40239), AOC, 19 Dec 2001.  
 KA Sadasivan (SL-02798), SL (RO), 27 Jul 2001.  
 KT Mathew (IC-39981), Inf, 19 Dec 2001.  
 P Naik (SL-02833), SL (Tech), 27 Jul 2001.  
 SS Bakshi (IC-37799), AOC, 12 Nov 2001.  
 MCR Nair (IC-37908), ASC, 27 Apr 2002.  
 A Kumar (IC-37905), AOC, 27 Apr 2002.  
 RK Pande (IC-40236), AD Arty, 19 Dec 2001.  
 B Singh (IC-40077), AOC, 19 Dec 2001.  
 N Chopra (IC-40252), Arty, 19 Dec 2001.  
 S Bhattacharya (IC-37916), Arty, 27 Apr 2002.  
 PK Royal (IC-40459), Inf, 12 Jun 2002.  
 PK Das (IC-40420), ASC, 12 Jun 2002.  
 P Srivastava (IC-37884), AOC, 27 Apr 2002.  
 A Kumar (IC-40234), Arty, 19 Dec 2001.  
 G George (IC-40611), Inf, 12 Jun 2002.  
 SS Bhullar (IC-40622), Inf, 12 Jun 2002.  
 R Chopra (IC-40461), Inf, 12 Jun 2002.  
 B Kumar (IC-40351), Inf, 12 Jun 2002.  
 P Kumar (IC-39310), Inf, 13 Dec 2000.  
 TD Prasad (IC-40650), Inf, 12 Jun 2002.  
 S Kumar (IC-40646), AOC, 12 Jun 2002.  
 SP Sharma (IC-40455), ASC, 12 Jun 2002.  
 J Kumar (IC-40560), Sigs, 12 Jun 2002.

S. S. SINHA  
 Dy Dir/MS 8A

### (NAVY BRANCH)

No. 143, dated 04th January 2003.—The President is pleased to promote the following Stenographer Grade-I as Private Secretary w.e.f. the date mentioned against their names :—

#### Name & Date

Shri Mohammed Younis, 27 Sep 2002.  
 Shri CH Chinai Krishna, 29 Nov 2002.  
 They will be on probation for a period of two years.

K S VERMA  
 Jt Dir  
 MS-8C

B S BAJWA  
 Commodore  
 Director of Civilian Personnel

## AIR FORCE

No. 144, dated 05th January 2003.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

## INDIAN AIR FORCE

## F(P) BRANCH

Fg Offr To be Substantive Flt Lt

(Ms) Nivedita Roy (25401), 19 Dec 2002.

(MS) Shironi Kulkarni (25402), 19 Dec 2002.

## ADM BRANCH

Fg Offr To be Substantive Flt Lt

Abhilasha Bisht (25181) wef 20 June 2002.

NJ Reddy (24995, wef 15 Jul 2002.

(Ms) Reena Gupta (25404), 19 Dec 2002.

(Mrs) Sourabh Sood (25405), 19 Dec 2002.

(Mrs) Meenakshi Nigam (25406), 19 Dec 2002.

(Mrs) Sangeeta Kathait (25407), 19 Dec 2002.

(Ms) Nidi Juyal (25408) 19 Dec 2002.

(Ms) Nidi Agarwal (25409), 19 Dec 2002.

(Mrs) Mamta Singh Yadava (25410), 19 Dec 2002.

## LGS BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(Ms) Shalini Anand (25411), 19 Dec 2002.

(Mrs) Puja Malik (25412), 19 Dec 2002.

(Mrs) Kamana Khatri (25413), 19 Dec 2002.

(Ms) Sumisha Pradhan (25414), 19 Dec 2002.

(Ms) Preeti Aswal (25415), 19 Dec 2002.

## ACCTS BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

(Mrs) Shaveta Talwar (25416), 19 Dec 2002.

(Mrs) Mrinalini Sinha (25417), 19 Dec 2002.

(Mrs) Kavita Kathuria Chug (25418), 19 Dec 2002.

S V KUTE

Sqn Ldr

ADPO 3(D)

## (ARMY BRANCH)

No. 145, dated 05th January 2003.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 24-09-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on prob)

Sarla Gurmeet Singh (MS-13381-L) now (MR-07794-Y). AMC, 12-01-1999 with seniority for pay and promotion wef 12-07-1997. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09-03-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (on prob)

Amit Sethi (MS-13480-N) (MR-07790-H) (75680-Z), AMC, with seniority for pay and promotion wef 02-03-1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 19-12-1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 06-12-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

To be Capt (on prob)

Chandra Pratap Singh (MS-13532-Y) (MR-07813-Y), AMC, with seniority for pay and promotion wef 08-11-1997. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05-02-2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 04-12-2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

To be Surg Lt (on prob)

P K Srivastava (MS-12866-F) now (MR-07792-H) (75606-F), AMC, 04-01-1996, with seniority for pay and promotion wef 4-1-1994. (This includes 24 months of antedate of seniority for PG Qualification [MD (General Medicine) which will count for pension not for gratuity] (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12-07-1997 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

K B N S DOD  
Brigadier  
Dy DGAFMS-(P)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 146, dated 04th January 2003.—The President is pleased to permit Lt Gen SK Jain, PVSM, AVSM, VSM (IC-13954) ret'd to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Corps of Electronics & Mechanical Engineering with effect from 31 Dec 2002 (A/N).

The President is pleased to permit Gen S Padmanabhan, PVSM, AVSM, VSM (IC-11859) ret'd to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Regiment of Artillery with effect from 31 Dec 2002 (A/N).

N MARIAPPAN  
Jt Dir  
MS (X)

## DIRECTORATE GENERAL AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

## DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICES

No. 147, dated 05th January 2003.—Shri N. Rajagopalan, Director, HQrs Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Ministry of Defence, New Delhi has retired voluntarily from Service w.e.f. 19 Nov 2002 (F/N).

V. SETHUMADHAVAN  
Under Secy.

## AIR BRANCH

No. 148, dated 05th January 2003.—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from service on Premature Retirement.

## INDIAN AIR FORCE

## F(N) BRANCH

Wg Cdr MF Siddiqui (12427), 30 Apr 99 (AD).

Sqn Ldr K Haldar (17186), 31 Mar 99 (AD).

## AE(M) BRANCH

Wg Cdr Jayadev Desai (15477), 31 Dec 99 (AD).

Wg Cdr PK Mukherji (14610), 31 May 99 (AD).

Wg Cdr DN Gupta (14205), 31 Jan 99 (AD).

Sqn Ldr AK Keshap (15648), 28 Feb 99 (AD).

## AE(L) BRANCH

Wg Cdr D Mohan (15094), 31 Jul 99 (AD).

Wg Cdr B Mannan (15109), 30 Apr 99 (AD).

Wg Cdr SC Sindhwani (14309), 31 Jan 99 (AD).

Sqn Ldr P Ravindra (19637), 28 Feb 99 (AD).

## ADM. BRANCH

Wg Cdr KP Patnaik (13658), 31 May 99 (AD).

## MET BRANCH

Wg Cdr RC Sped (13009), 10 May 99 (AD).

A SENGUPTA

Wg Cdr

DDPO-3 (F)